



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1498]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2017/ ज्येष्ठ 5, 1939

No. 1498]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2017/ JYAISTHA 5, 1939

I Md i f j o g u v k j j k t e k x l e a k y ;

v f / k l p u k

नई दिल्ली, 19 मई, 2017

dk-vk- 1693¼½—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 कि.मी 165 के निर्माण (जवाहर पुल के पुनः निर्माण एवं चोड़ीकरण किये जाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप-मंडलीय अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान), को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्योरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

v u q p h

राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 के कि.मी 165 के निर्माण (जवाहर पुल के पुनः निर्माण एवं चोड़ीकरण किये जाने आदि) के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।							
क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	खसरा सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	644	निजी	वणिज्यिक आबादी	35.42
				642	निजी	वणिज्यिक आबादी	127.29
				626	निजी	वणिज्यिक आबादी	147.31

[फा. सं. आर.डब्ल्यू./एन.एच.—12012/05/2014—पीएस-4/आरजे]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th May, 2017

S.O. 1693(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building National Highway maintenance, management and operation of National Highway no. 113 in the stretch of land at Km. 165 (Reconstruction/widening of minor bridge in Km 165 Jawhar bridge) in the District of Banswara in the State of Rajasthan hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub Divisional Officer, Banswara (Rajasthan), in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by Competant Authority under sub-section (2) of Section 3C of the said act shall be final.

The land plan and other details of land converted under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of Competant Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land at Km. 165 (Reconstruction/widening of minor bridge in Km 165 Jawhar bridge) of National Highways No. 113 in the state of Rajasthan.							
Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Khasra/ Survey number	Type of land	Nature of land	Area in Square Meter
1	Banswara	Banswara	Banswara	644	Private	Commercial Abadi	35.42
				642			127.29
				626			147.31

[F. No. RW/NH-12012/05/2014/PS-4/RJ]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.